

March 5, 2022

To
The Listing Department
Bombay Stock Exchange Limited
Department of Corporate Services
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street
Mumbai – 400 001

The Listing Department
National Stock Exchange of India
Limited
Exchange Plaza, C-1, Block G
Bandra Kurla Complex
Mumbai – 400 051

Scrip Code: 532771

Trading Symbol: JHS

Sub: Newspaper Publication regarding the Extra-Ordinary General Meeting to be held through Video Conferencing ("VC") of JHS Svendgaard Laboratories Limited ("the Company").

Dear Sir/Madam,

In compliance with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, this is to inform you that the Company has published today the newspaper advertisement with regard to the captioned subject in Business Standard (English) and Business Standard (Hindi).

Copy of the above notice as published in the newspapers is enclosed.

Kindly take the same on the record.

Thanking You Yours faithfully

For JHS Svendgaard Laboratories Limited

NIKHIL Digitally signed by NIKHIL NAND NANDA Date: 2022.03.05 17:35:55 +05'30'

Nikhil Nanda Managing director DIN: 00051501

Encl: A/a





Only 8% of fund managers are women, says report

Mumbai, 4 March

¶ he ₹38-trillion worth Indian mutual fund (MF) industry continues to be dominated by male fund managers. With a meagre 8 per cent representation, women still remain drastically underrepresented among the ranks of mutual fund managers, says a study by Morningstar India.

The latest findings of the report show that of the 399 fund managers, 32 are women, who are managing funds either as primary or secondary managers or have oversight as heads of equity or debt. The number of women fund managers has increased from 30 last year to 32 now.

Interestingly, the total number of fund managers saw a healthy increase this year, up from 376 managers seen last year.

"The total open and close-end assets managed by women fund ₹4.55 trillion, which is 12 per cent ont been something to boast about. in the MF industry. When the first gories were about ₹2,000 crore.



Female

Male

Total

Last year, this number was 13.5 per

has certainly been a rise in the

number of female fund managers

However, over the years there

cent," said the report.

Female fund managers handle about a tenth of industry AUM

WOMEN FM

% of total	8.02
AUM of women FMs (₹ cr)	455,438
% of total AUM	12.00

of the total mutual fund assets. Over the last few years, while the assets managed by women are on the rise. in percentage terms of the overall managers are approximately industry's assets, this number has

र्वेड ऑफ़ इंडिया BOI

in 2019, then reduced to 28 in 2020 and again increased to 30 in 2021. followed by 32 in 2022.

STEADY RISE

CAGR growth* (%)

60.4

18.8

41.6

2016

Note: e stands for estimated; *2020-25

Investible wealth of men and women

78.2

25.7

52.5

2020

The 32 female fund managers were spread across 19 fund houses, with 4 fund houses having three or more female fund managers. Four fund houses had two female fund managers, while 11 fund houses had at least one woman fund manager.

report on female fund managers

came in 2017, there were only 18

female fund managers. That

number increased to 24 in 2018, 29

From the perspective of assets managed across various classes. out of the total open and closedended fund assets managed by women (₹4.55 trillion), approximately ₹2.19 trillion were fixedincome funds (excluding money market, liquid and overnight funds), around ₹81,000 crore were money market funds, liquid and overnight funds. While ₹1.12 trillion were equity funds, around ₹39.000 crore were allocation funds and the solution and other cate-

■ Men ! ■ Women ! Total

99.0

34.5

64.5

2025E

Source: UBS repor

Term is not enough, buy personal accident cover too

These policies prove especially useful in case of a disability

SARBAJEET K SEN

The Insurance Regulatory and Development Authority of India (Irdai) recently proposed amendments to regulations to allow lifelong renewability of personal accident (PA) policies. This will come as a relief for senior citizens, who were often deprived of a PA cover as policies ceased after a certain age.

PA policies of different companies, including Saral Suraksha Bima, typically cease after the age of 65-70. Group PA policies cease even earlier. Even the Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, which pays ₹2 lakh in case of accidental death and ₹1 lakh in case of accidental disability, ceases at the age of 70.

"The proposed regulation will provide policyholders control over renewal. It will ensure hassle-free protection and enable people to meet the financial liabilities that arise after an accident," says Rakesh Jain, chief executive officer (CEO), Reliance General Insurance

PA cover a must

Irdai's move brings to the fore the need for greater penetration of PA policies in a country that has a high rate of accidental death and disability. "PA insurance

offers comprehensive protection against accidents. It provides compensation in case of disability or death caused by an accident. It also reimburses medical costs," says Naval Goel, founder and CEO, PolicyX.com.

What is covered?

A PA cover provides financial protection to the insured and their family members in case of accidents that cause bodily injuries, death due to an accident, permanent total disability, temporary total disability, and permanent partial disability.

INEXPENSIVE COVER

Premiums are for ₹10 lakh sum insured, for a 35-year-old, with annual income of ₹8 lakh

· ·				
nsurer	Premium* (₹)			
Niva Bupa	1,299			
ffco Tokio General Insurance	1,269			
-uture Generali	1,254			
itar Health	507			
Premiums are for persons engaged in non-hazardous				

Today's policies cover several additional risks, too. "PA policies provide EMI cover, and fracture and coma cover. They also cover the risks people are exposed to while participating in adventure sports. In addition, there is a feature called children's education bonus, which covers the fees of the insured's children up to a certain amount and for a certain time period, depending on the policy terms and conditions," says Gurdeep Singh Batra, head,

retail underwriting, Bajaj Allianz

General Insurance. Batra says both annual and long-term covers are available. He adds that coverage starts right from day one, with no waiting period. These policies also provide compensation for out-ofpocket expenses incurred due to an accident.

Everyone needs a PA cover Jain says a PA cover should be

MONEY

purchased by everyone, irrespective of age, occupation or health condition, as one does not know when an accident could occur, causing hardship to the family. Batra agrees, "Everyone

should buy this policy, especially given the ever-increasing number of road accidents in our country. People whose jobs involve a lot of travelling, or those who do a lot of leisure travelling, must buy this policy. With the rise in adventure tourism, even the tourism department of

India emphasises the need for a PA cover before opting for adventure sport activities," he says.

Buy minimum ₹10 lakh cover

Buying adequate sum insured is important. "Since it is difficult to assess the severity of an accident in advance, one should buy at least a ₹10 lakh cover," says Goel.

Jain advises opting for the maximum sum insured one is eligible for.

"Those who travel, especially vehicle owners and drivers, should purchase a cover equivalent to 100 times their monthly income. The sum insured starts from ₹5 lakh. How high a cover one can buy depends on eligibility criteria, such as the insured's occupation," says Jain.

Check out features

Buyers need to assess the features offered by various PA policies before purchasing one. "Besides affordability of premium and network hospitals, the buyer must also check the additional features provided by an insurer, such as coverage for broken bones and burns caused by an accident. Having an ambulance and hospital cash benefit would be an advantage. The plan must also cover casualties that occur abroad," says Goel.

Adds Jain: "Check if the insurer provides bonus sum insured, reimbursement for medical expenses, education fund for children, and a hasslefree claim procedure.

WOMEN'S INVESTIBLE **WEALTH GROWS MORE** THAN THAT OF MEN

The growth in women's investible wealth outpaced that of men between 2016 and 2020, rising at a compound annual growth rate (CAGR) of 8.2 per cent, as against 5.9 per cent for men. The pace of growth is expected to be higher for women going ahead, too. "Women's investible wealth is expected to continue to grow more rapidly than men's over the period 2021-2025 (projected CAGR of 6 per cent versus 4.2 per cent)," said UBS in a note. In 2020, female investors controlled a third of total global personal investible wealth, up from 31 per cent in 2016. By 2025, their share is projected to further increase to 35 per cent. When it comes to Asia (excluding Japan), women's investible wealth is expected to grow at a CAGR of 8.8 per cent to \$7.3 trillion by 2025 from \$4.8 trillion in 2020. For men, the growth rate is pegged to be 7.4 per cent over the same period. BS REPORTER

Centre announces destruction of old patient records (by appropriate method) dated between III (For In- Patient) record older than Feb 2017 and for OP (for Out Patient) records older than same after submission of proper identity proof as per hospital policy within 7 working days o his notice; there after no request or query will be entertained by the hospital in this regard an lospital and/or its authorized representative will not be responsible for the same

Apollo Hospitals International Ltd., Bhat GIDC Estate, Gandhinagar, Gujarat. Apollo Hospitais City Centre, #1 Tuisibaug Soc., Nr Parimal Garden Ahmedabad, Gujarat Apollo CBCC, 1st Floor, Apollo Hospitais, Bhat GIDC Estate, Gandhinagar, Gujarat.

> JHS Svendgaard Laboratories Limited Corporate Identity Number: L74110HP2004PLC027558
> Regd. Office: Trilokpur Road, Kheri Kala -Amb, Tehsii - Nahar

Distt: Sirmaur, Himachai Pradesh Ph. No.: 011-29949675 and Fax No. 01702-238830 e: www.svendgaard.com • email: enquiry@svendge

ted 28" September, 2020, 39/2020 dated 31" December, 2020, 10/2021 dated 31" dated 3 June, 2021 and 20/2021 dated 8th December, 2021, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MC) Journey, do I and 20/2021 loaded becentiber, 2021, issued by the ministry of corporate Allaist; Inc.

(Circulars**), without the physical presence of the Members at a Corporate Office of the Company
In compliance with the said MCA Circulars, electronic copies of the Notice of EGM have been se

PUBLIC NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING AND

REMOTE E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that Extra-Ordinary General Meeting ("EGM") of the members of JHS

Svendgaard Laboratories Limited ("the Company") will be held on Saturday, 26" March 2022 through video conference (VC), or other audiovisual (OAVM) to transact the business(es) as set out in

the Notice of EGMin compliance with the applicable provisions of the Companies Act. 2013 (Act

In compliance with the said MCACITCUIBITS, electronic copies of the Notice of Edwinster Joean Samo on Friday, 4" March 2022 to all the members, as on Friday, 25" February 2022, whose email Ibs are registered with the Company/ Depository participant(s). Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice of the EGM vide MCA Circulars is dispensed with. The Notice will also be available on the website of the Company www.svendgaard.com, website of on the

National Securities Depository Limited (NSDL) www.evoling.nsdl.com and on the website(s) of the stock exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India at www.bseindia.com

egistered with the Company/their respective Depository Participants, are requested to regist

registered with the Companyanier respective Depository Participants, are requested to registe their e-mail addresses at the earliest by sending scanned copy of a duly signed letter by the Member(s) mentioning their name, complete address, folio number, number of shares held with the Company along with self-attested scanned copy of the PAN Card and self-attested scanned copy of any one of the following documents viz., Aadhar Card, Driving License, Election Card

ssport, utility bill or any other Goyt, document in support of the address proof of the Member a registered with the Company by email to <u>cs@svendgaard.com</u>. Members holding shares in dem form can update their email address with their Depository Participants. Members may also set an e-mail request at the email id <u>cs@svendgaard.com</u> for receiving the notice of EGM.

The notice of the EGM contains the detailed instructions regarding the manner in which the nembers can register their email addresses and cast their vote through remote e-voting or by e-voting at the time of EGM and join the EGM through video conference (VC), which is available on

the website of the Company! NSDL/ Stock Exchanges, as referred above.

The members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-o

date i.e. Friday, 18th March 2022, may cast their vote electronically on the Special Business as set ou in the Notice of EGM through electronic voting systems of NSDL. All the members are informed that

the remote e-voting shall commence on Wednesday, 23rd March 2022 at 09:00 A.M. (IST):

The remote e-voting shall end on Friday, 25th March 2022 at 05:00 P.M. (IST);

embers may note that:

not be allowed to change ii subsequently;

the facility of remote e-voting as well as voting at the EGM.

The Special Business(es) as set out in the Notice of EGM will be transacted through voting by

the cut-off date for determining the eligibility to vote by electronic means or at the EGM is Friday, 18th March 2022 and a person who is not a Member as on the cut off date should treat

this Notice for information purposes only; Person, who acquires shares of the Company and becomes a member of the Company after sending of the Notice of EGM and holding shares and eligible to vote, can follow the process for

nerating the login ID and password as provided in the Notice of the EGM. If such a person is already registered with NDSL for e-voting, existing user ID and password can be used for

the remote e-voting module shall be disabled by the NDSL after the aforesaid date and

attend the EGM but shall not be entitled to cast their vote again, and the facility for voting through electronic mode shall be made available at the EGM: and a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial

n case of any queries including issues and concerns related to remote e-voting and voting a EGM, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting

er manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or ca

sst. Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 013, at the designated and id – evoting@nsdl.co.in or at telephone nos.:- +91 22 24994545, +91 22 24994559, who will also

n toll-free no.: 1800-222-990 or send a request at evoting@nsdl.co.in or contact. Ms. Sarit

cted with the voting by electron

ners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to ava

ve cast their vote by remote e-voting prior to the EGM may al

time for voting and once the vote on a resolution is cast by the member, the member

and <u>www.nseindia.com</u> respectively, where the securities of the Company are listed.

Members, who are holding shares in physical/electronic form and their e-mail addres

and Rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requ egulations, 2015 ("Listing Regulations") read with General Circular nos. 22/2020 dated 15" June

For query please call: 079 66701800, Ext-1715/16.

HO: Star House, C-5, "G" Block, 3rd Floor,

022 66684583, 022 66684435

Dated: 05.03.2022

HOSPITAL NOTICE

Gujarat State Petronet Limited

SALE OF NON-PERFORMING ASSETS

BOI Invites Expression of Interest from eligible ARCs/Banks/NBFC/FIs for the

proposed sale of its NPAs. The sale shall be on "As is Where is, As is What is and

Whatever there is basis" and "without recourse basis". The prospective investors

(who are eligible) are requested to visit our website immediately, in section Expression of

Interest column at Bank's website i.e. www.bankofindla.co.in for further details and

Regd Office: GSPC Bhavan, Sector-11, Gandhinagar-382010
Tel.: +91-79-23268500/700 Fax: +91-79-23238506 Website: www.gspcgroup.com **NOTICE INVITING TENDER** Gujarat State Petronet Limited (GSPL) is laying a gas grid, to facilitate gas transmission from supply points to demand centers. GSPL invites bids from

competent agencies for following requirements vide "single stage, three-part" Tender-1: Supply and installation of Fire Suppression System for IT server room at GSPL Bhavan Hiring of Gas Compressor services for Natural Gas Compression Tender-2: at GSPL Olpad station Quantitative Risk Assessment (QRA) study for GSPL upcoming Tender-3:

Tender-4: EIA/RA, EC, CTE, WC & CRZ for upcoming GSPL Pipeline Pre-qualification of Contractor(s) for Laying & Construction of Natural Gas Pipeline (steel), Terminals & Associated works across the Gujarat

Interested bidders can view/download details, viz. Bidding Schedule, Bid Qualification Interested bloders can viewdownicad cetalis, Vt. slooting Schedule, bid Qualification Criteria (BQC) and Tender Documents from https://gspl.nprocure.com. Details car also be viewed on GSPL Website (https://gspl.nprocure.com and all future announcemen related to this tender shall be published on https://gspl.nprocure.com only. Date of tender upload on both websites: 05-03-2022@15.00 hrs. IST

GSPL reserves the right to cancel and/or alter bidding process at any stage withou assigning any reason. GSPL also reserves the right to reject any or all of the bid. received at its discretion, without assigning any reasons whatsoeve

EIH Associated Hotels Limited

Registered Office: 1/24, G.S.T. Road, Meenambakkam, Chennai-600 027 hone: 91-44-2234 4747 Facsimile: 91-44-2234 6699 91-44-2234 4985 Investors Services Division: 7. Sham Nath Marg. Delhi-110054 Telephone: 91-11-2389 0505, Facsimile: 91-11-23890575 Website: www.eihassociatedhotels.in Email: isdho@oberoigroup.com; invcom@tridenthotels.com

CIN: L92490TN1983PLC009903 NOTICE

For the attention of the Equity Shareholders of the Company Sub: Appointment of M/s. Link Intime India Private Limited as the Registrar and Transfer Agent (RTA)

The Security holder, beneficial owners, depository participants and all other concerned stakeholders are hereby informed that the Company has appointed Link Intime India Private Limited (SEBI Registration no. INR0000004068) as its New Registrar and Transfer Agent effective from 7th March 2022.

Accordingly effective from 7th March 2022 security holders, beneficial owners and depository participants are requested to deliver all their requests/ documents / correspondence relating to the Company's shares at the below mentioned address. Link Intime India Private Limited

Noble Heights 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savitri Market Janakpuri, New Delhi-110058 Phone: 91 11 49411000

Address and other contact details of the various offices of

the Link Intime India Private Limited are available on www.linkintime.co.in For EIH ASSOCIATED HOTELS LIMITED Place: Delhi **TEJASVI DIXIT** Date: 5th March 2022

Company Secretary

itional Ltd., Applic CBCC, Gandhinagar and Applic Hospitals City

NOTICE is hereby given that DSP Trustee Private Limited, the Trustee to DSP Mutual Fund ('Fund') has approved the distribution under Income Distribution cum Capital Withdrawal ('IDCW') Option(s) of the below mentioned scheme(s) of the Fund.

Record Date: March 10, 2022

Name of Scheme(s)	Plan(s)	Option(s)	Quantum of IDCW (₹ per Unit)#	Face Value (₹ per Unit)	Net Asset Value ('NAV') as on March 03, 2022 (₹ per unit)
DSP Flexi Cap Fund	Regular	IDCW	5.300	10	53.194
DSP Flexi Cap Fund	Direct	IDCW	7.400	10	74.117
DSP Natural Resources and New Energy Fund	Regular	IDCW	2.500	10	25.302
DSP Natural Resources and New Energy Fund	Direct	IDCW	2.900	10	29.259
DSP Value Fund	Regular	IDCW	1.300	10	12.602
DSP Value Fund	Direct	IDCW	1.300	10	12.720

*The per unit rate is same for individual and other category of investors.

Distribution of the above IDCW is subject to the availability and adequacy of distributable surplus.

to the extent of payout and statutory levy, if any. IDCW amount will be paid to all those Unit Holders/Beneficial Owners whose names appear in the records of the Registrar and

Pursuant to payment of IDCW, the NAV of the IDCW Option(s) of the aforesaid Scheme(s) of the Fund would fall

Transfer Agent, Computer Age Management Services Limited/statement of Beneficiary Owners maintained by the Depositories under the IDCW Option(s) of the aforesaid Scheme(s) as on the Record Date. The Payout shall be subject to tax deducted at source (TDS) as applicable.

Unit holders are advised to update change of address / bank details, if any, with depository participant(s) in advance of the Record

DSP Investment Managers Private Limited ("AMC") CIN: U74140MH1996PTC099483 Investment Manager for DSP Mutual Fund Mafatlal Centre, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai 400 021 Tel. No.: 91-22 66578000, Fax No.: 91-22 66578181 Toll-free: 1800 208 4499 or 1800 200 4499 Email ID: service@dspim.com Website: www.dspim.com

Unit holders are requested to update their PAN, KYC, email address, mobile number, nominee details with AMC, review the Investor Charter available on website of the Fund as well as check for any unclaimed redemptions or Income Distribution cum Capital Withdrawal ('IDCW') payments.

Any queries/clarifications in this regard may be addressed to:

Place: Mumbai Date: March 04, 2022

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

संक्षेप में

बच्चों पर केंद्रित भुगतान फर्म जुनियो ने जुटाई रकम

भारत के पहले बच्चों पर केंद्रित डिजिटल भुगतान एवं पॉकेट मनी ऐप जुनियो कहा है कि उसने ए-शृंखला पूर्व वित्त पोषण दौर के तहत 60 लाख डॉलर जुटाए हैं। इसमें संयुक्त अरब अमीरात की कंपनी एनबी वेंचर्स की अंग्रणी भूमिका रही और राजीव डडलानी ग्रप ने भी इस निवेश दौर में भाग लिया। फिनटेक स्टार्टअप जुटाई गई रकम का उपयोग अपनी टीम को मजबत करने. नई उत्पाद सविधाओं की पेशकश करने और ग्राहकों को आकर्षित करने संबंधी पहल को आगे बढ़ाने में करेगा। जूनियो शंकर नाथ और अंकित गुप्ता के दिमाग की उपज है।

ड्रीम-11 सह-संस्थापकों के खिलाफ एफआईआर रह

डीम-11 के सह-संस्थापकों हर्ष जैन और भवित शेठ के खिलाफ पिछले साल बेंगलूरु में दायर एफआईआर को कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

हीरो मोटोकॉर्प का नया ईवी ब्रांड

कंपनी ने विडा ब्रांड का अनावरण किया, 1 ज़ुलाई को उतारेगी पहला ई-स्कूटर मॉडल

अरिदम मजूमदार नई दिल्ली, 4 मार्च

पहिया वाहन बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) कारोबार के लिए एक नया ब्रांड विडा को लॉन्च किया है ताकि हीरो ब्रांड नाम को लेकर हीरो इलेक्टिक के साथ जारी मध्यस्थता के बीच कानूनी जटिलताओं से बचा जा सके। हीरो मोटोकॉर्प 1 जुलाई को अपने पहले दोपहिया स्कृटर को लॉन्च करेगी।

सबसे बडी इलेक्टिक दोपहिया कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक के मालिक विजय मुंजाल और उनके बेटे नवीन मुंजाल हैं। उन्होंने पिछले साल अपने चचेरे भाई और हीरो मोटोकॉर्प के प्रवर्तक एवं चेयरमैन पवन मुंजाल के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी जिसमें हीरो



मोटोकॉर्प द्वारा आगामी इलेक्टिक दोपहिया उत्पादों के लिए ब्रांड नाम का उपयोग करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

अदालत ने कंपनी को अपने इलेक्टिक वाहनों के लिए हीरो ब्रांड

> नाम का उपयोग करने से नहीं रोका है बल्कि बातचीत के जरिये मामले को निपटाने का निर्देश दिया है। कंपनी ने अब इलेक्ट्रिक सभी मोबिलिटी गतिविधियां विदा ब्रांड के तहत करने की योजना बनाई है।

कंपनी ने कई नामों के

मुंबई, 4 मार्च

बजाज ऑटो के नेतृत्व में घरेलू

दोपहिया वाहनों की बिक्री ने

फरवरी में भी निराश किया और

एक साल पहले की समान अवधि

के मुकाबले दो अंकों में गिरावट

दर्ज की। महीने के दौरान बजाज

ऑटो ने घरेलू बाजार में अपने

दोपहिया वाहनों की बिक्री में 35

फीसदी की गिरावट दर्ज की।

उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प ने 32

फीसदी और आयशर मोटर्स ने 20

फीसदी की गिरावट दर्ज की।

टीवीएस मोटर का प्रदर्शन

अपेक्षाकृत बेहतर रहा क्योंकि

उसकी बिक्री में 11 फीसदी की

गिरावट दर्ज की गई। थोक बिक्री

आंकडों में गिरावट की झलक इन

वाहन कंपनियों के शेयरों में भी

पेटेंट के लिए आवेदन किया है जिसमें विदा मोटोकॉर्प, विदा ईवी, विदा इलेक्ट्रिक, विदा स्कृटर्स और विदा मोटरसाइकिल्स शामिल हैं।

जुलाई २०२२ में उतारने

हीरो मोटोकॉर्प ने 10 करोड डॉलर के ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फंड की भी घोषणा की है। इस फंड का उद्देश्य ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक एवं प्रशासन) समाधान पर 10,000 से अधिक उद्यमियों को पोषित करने के उद्देश्य के साथ बीएमएल मंजाल यूनिवर्सिटी (बीएमयू) एवं हीरो मोटोकॉर्प के नेतृत्व में वैश्विक साझेदारी करना है।

कंपनी के चेयरमैन एवं मुख्य कार्याधिकारी पवन मंजाल ने कहा,

दिखी और बुधवार को बजाज

ऑटो का शेयर 4.6 फीसदी लुढ़क

गया। गुरुवार को भी उसके शेयर

में 2 फीसदी की गिरावट आई और

शुक्रवार को 1.37 फीसदी की

वरुण बक्शी ने कहा कि बजाज

ऑटो के बिक्री आंकड़े उम्मीद से

कमतर रहे। ग्रामीण बाजार में

कमजोर धारणा से घरेलू बिक्री

प्रभावित हुई जबकि तिपहिया के

कमजोर प्रदर्शन से निर्यात सस्त

रहा। फरवरी में निर्यात ने कुल

मात्रात्मक बिक्री में 64 फीसदी का

योगदान किया और बाजार इस

श्रेणी में बजाज ऑटो के प्रदर्शन पर

नजर रखेगा। फरवरी में

मोटरसाइकिल निर्यात स्थिर रहा

लेकिन तिपहिया के निर्यात में 23

फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।

विक ऑक्र इंडिया BOI

प्रभुदास लीलाधर रिसर्च के

गिरावट दर्ज की गई।

बजाज ऑटो: मांग

की चिंता से दबाव

'जब मैं हमारे भविष्य की पीढियों को देखता हं, विशेषकर अपने पोते-पोतियों को, तो मैं सकारात्मक ऊर्जा के साथ भविष्य का निर्माण करना चाहता हूं जो स्वच्छ हो, जहां हर कोई कुछ बडा और बेहतर करना चाहता हो। मैं इस पहल का नेतत्व करूंगा।

इलेक्टिक कारोबार की ओर बदलाव के तहत कंपनी ने दुसरी कंपनियों के साथ साझेदारी एवं करार करना शरू कर दिया है। उसने फास्ट-चार्जिंग प्रौद्योगिकी के लिए बेंगलूरु की कंपनी एथर एनर्जी से करार किया है। कंपनी में हीरो की करीब 38 फीसदी हिस्सेदारी है।

कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दोनों कंपनियां चार्जिंग बृनियादी ढांचे के विकास, वैश्विक कारोबार आदि तमाम मार्ची पर तालमेल स्थापित करने की संभावनाएं तलाश रही हैं। उन्होंने कहा कि दोनों कंपनियों आपसी तालमेल से काफी कुछ सीखा है।

हीरो मोटोकॉर्प के मुख्य वित्तीय अधिकारी निरंजन गुप्ता ने कहा, 'हम उत्पाद अथवा राजस्व के बजाय एक परिवेश के तौर पर ईवी की दुनिया से संपर्क कर रहे हैं। इसलिए हम अपने मौजुदा निवेश के बावजुद कई करार कर रहे हैं क्योंकि हमारा मानना है कि ईवी फिलहाल साझेदारी और सहयोग का मामला है न कि प्रतिस्पर्धा का।'

यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री 8 फीसदी घटी

नई दिल्ली, 4 मार्च

वाहन डीलरों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) ने शुक्रवार को कहा कि चिप की कमी के कारण कंपनियों को उत्पादन संबंधी नकसान लगातार उठाना पड रहा है, जिससे फरवरी में घरेल यात्री वाहनों की खदरा बिक्री में 8 फीसदी की गिरावट आई है।

यात्री वाहनों की बिक्री पिछले महीने 7.84 फीसदी गिरकर 2.38.096 इकाई पर आ गई, जो फरवरी 2021 में 2,58,337 इकाई रही थी। फाडा के अध्यक्ष विंकेश गुलाटी ने एक बयान में कहा कि यात्री वाहन श्रेणी में कुछ नए वाहन बाजार में आए और बेहतर उत्पादन से कुछ राहत तो जरूर मिली लेकिन यह ग्राहकों की मांग की पूर्ति के लिहाज से काफी नहीं है। वाहन के लिए इंतजार का समय पिछले कुछ महीनों जितना ही बना हुआ है।

संगठन की ओर से चेतावनी दी गई कि रूस-यक्रेन संघर्ष के कारण सेमीकंडक्टर का उत्पादन और भी प्रभावित हो सकता है। पिछले महीने दोपहिया वाहनों की बिकी 10.67 फीसदी की गिरावट के साथ 9,83,358 इकाई रही, जो



यात्री वाहनों की बिक्री पिछले महीने 7.84 फीसदी गिरकर 2,38,096 इकाई पर आ गई, जो फरवरी २०२१ में २,५८,३३७ इकाई रही थी

फरवरी 2021 में 11,00,754 इकाई थी। पिछले महीने 50,304 ट्रैक्टर बिके, जो फरवरी 2021 में बिके 62,004 ट्रैक्टर के मुकाबले 18.87 फीसदी कम है।

हालांकि दसरी व्यावसायिक वाहनों की बिक्री में पिछले वर्ष के मुकाबले इस फरवरी में 7.41 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले महीने कल 63,797 वाहन बिके जबकि एक साल पहले समान महीने में 59,395 वाहन बिके थे। पिछले महीने विभिन्न प्रकार के कुल 13.74.516 वाहनों की खंदरा बिक्री हुई, जो फरवरी 2021 में बिके 15,13,894 वाहनों के मुकाबले 9.21 फीसदी कम है।

सिक्योरिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेटस एंड एन्फोसॅमेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (कानून) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना कर्जदाता (ओं) का नाम गिरवी संपत्ति(यों) एन.पी.ए की प्लॉट नंबर 4 (4–सी के रूप में जाना कर्ज खाता क्र. रू. 21,26,133,46/- (इक्कीस लाख छब्बीस HHLPAC00421619 हजार एक सौ तैंतीस रूपये और छियालीस जाता है) की दसरी मंजिल, राधा एन्क्लेब गांव किशनपुरा, तहसील डेरा बस्सी, जिल पैसे मात्र) 31.01.2022 के अनुसार एस.ए.एस. नगर, जीरकपुर-140603,

कि ऊपर लिखे नाम वाला उघार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी दारा अपनी आम बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उधार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है। उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पुनर्भुगतान में लगातार चूक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी द्वारा सीमांकित मापदंडो के भीतर निष्पादनेतर परिसंपतियाँ (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है।

उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए कंपनी एतद्द्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लों) का आहवान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।

कृपया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्धारित समयाविष के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता" सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13(2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने रे

कते इंडियाबल्स हाउसिंग फाइनेन्स लि

स्थान: पिंजौर/जीरकपुर

रिटाईजेशन एंड रिकन्स्ट्रवशन ऑफ फायनांशियल असेटस एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 (कानुन) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना							
(कानून) की बारा 13(2) के अंतरात सूचना							
(ओं) का नाम	गिरवी संपत्ति(यों)	एन.पी.ए की	बकाया राशि				
(y)	का विवरण	तारीख	(জ.) (डी)				
\ <i>\</i> ''	(बी)	(सी)	(डी)				
v .	संपत्ति बेअरिंग नंबर 332सी129य78.	18.01.2022	च. 8.78.087.20/- (आठ लाख अवहत्तर				

कर्जदाता कर्ज खाता क HHLYAM00347793 खेवट/खतौनी नंबर 16/19. खसरा नंबर हजार सत्तासी रूपये और बीस पैसे मात्र) . जय मां बाला सुंदरी 30//26(2-13) केए 30/477 भाग 18.01.2022 के अनुसार 2. अरविंद कुमार शर्मा रंजीत कॉलोनी, लक्ष्मी नगर के पास, मौजा 3. अंज शर्म चांदपुर, एच.बी. नंबर 419, तहसील जगाधरी, यमुना नगर –133105 हरियाणा कि ऊपर लिखे नाम वाला उचार लेने वाला(ले) ने ऋण खाते के वित्तीय अनुशासन को बनाए रख पाने में असफल रहे हैं तथा कंपनी द्वारा अपनी आम

बिजनेस चर्या में रखे जाने वाले खातों के अनुसार प्रत्येक उद्यार पाने वाले (लों) के नाम के आगे स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट धनराशि बकाया बनी हुई है। उधार लेने वाले(लों) की ओर से ऋण धनराशि का पनर्भगतान में लगातार चक होने के कारण उधार लेने वाले(लों) के ऋण खाते को कंपनी दारा सीमांकित मापदंडों के भीतर निष्पादनेतर परिसंपत्तियाँ (स्तंभ सी में तारीख के अनुसार) के रूप में वगीकृत किया गया है। परिणामस्वरूप प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिनियमन की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचनाएं भी जारी की गई है ।

उपर्युक्त को दुष्टिगत रखते हुए कंपनी एतदुद्वारा ऊपर लिखे नाम वाले उधार लेने वाले(लॉ) का आहुवान करती है कि, वे इस सूचना के प्रकाशित होने के दिन से 60 दिन के भीतर अद्यतन ब्याज, लागतें, तथा शुल्कों सहित ऊपर स्तंभ डी में विनिर्दिष्ट संपूर्ण बकाया देयताओं का भुगतान करके कंपनी के प्रति बनने वाले अपने / उनके पूर्ण दायित्वों का निर्वहन करें, ऐसा न करने पर कंपनी ऊपर के स्तंभ बी में उल्लिखित बंधक रखी गई संपत्ति को अधिग्रहीत करने के लिए कंपनी पात्र होगी।

ाया ध्यान दें कि सरफेसी कानून की धारा 13 की उप−धारा (8) के प्रावधानों के अनुसार, ''कर्जदार सार्वजनिक नीलामी द्वारा, कोटेशन आमंत्रिर करते हुए, सार्वजनिक निविदा या निजी समझौते द्वारा सुरक्षित आस्तियों की बिक्री के लिए सूचना के प्रकाशन के दिनांक तक केवल सिक्योर्ड क्रेडिटर द्वारा किए गए सभी खर्चों, लागतों और प्रभारों के साथ संपूर्ण बकाया देय राशि अदा कर सकता है, इसके अलावा यह भी ध्यान दें कि उपरोक्त विधिक रूप से निर्घारित समयावधि के अंदर सुरक्षित आस्ति का मोचन करने में कर्जदार विफल रहने पर कर्जदार संपत्ति का मोचन करने के लिए पात्र नहीं हो सकता"

सरफेसी अधिनियमन की उपधारा 13(2) के प्रावधान के संदर्भ में, आप इस प्रकार बिक्री, पट्टे के माध्यम से अन्यथा नोटिस में उल्लिखित अपनी सुरक्षित संपत्तियों में से कोई भी (अपने व्यापार के सामान्य पाठचक्रम के अलावा) सुरक्षित लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना स्थानांतरित करने से

[प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अनुसार]

जैसाकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत भारतीय स्टेट बैंक

एसएआर शाखा, सेक्टर-5, पंचकुला का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठिव

धारा 13(2) तथा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में निम्नलिखित कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों) से सूचना में उल्लिखित राशि का कथित

कर्जदार/सह-कर्जदारों द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार/सह-कर्जदारों को सूचित किया जाता है वि

अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीर्च

कर्जदार(रों)/जमानती(यों) को विशेष रूप से तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति

प्रतिभत सम्पत्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदारों/जमानतियों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8

किता 1, वर्ष 2011-2012 के लिए जमाबंदी के अनुसार, शांति नगर, दर्ग खेड़ा, थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र में स्थित, श्री बाल राज पुत्र श्री

जिले सिंह, दोनों का पता : मकान नं. नं. 2161/2099, खतौनी नं. 2435, किता 2, वर्ष 2015-16 के लिए उस पर ब्याज एवं अन्य

राणा, मकान नं. 81-ए, शास्त्री नगर, 2161/2099, खतौनी नं. 2435, किता 2, जमाबन्दी वर्ष 2015-16 के उस पर ब्याज एवं अन्य

विलेख में 19510 दिनांक 05.01.2012 के माध्यम से।

गज, यानी ७ मरला ४ सरसाई, भूमि माप ७क -०म में से ३१/१२६० हिस्स

गज अर्थात 6 मरला 9 कनाल 12 मरला में से 6/192 हिस्सा, खेवट

जमाबंदी में शामिल है, श्रीमती कुसुम लता राणा पत्नी स्वर्गीय श्री यश

पाल राणा के नाम पर, बिक्री विलेख संख्या 19510 दिनांक 05.01.2012

मकान नं. 81ए, माप 171 वर्ग गज 15.09.2021 03.03.2022

अर्थात ६ मरला, ९ कनाल १२ मरला में से ६/१९२ हिस्सा, खेवट न

माध्यम से, श्रीमती कसम लता राणा पत्नी स्व. श्री यश पाल राणा विक

STATE BANK OF INDIA

सचना की प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर पनर्भगतान करने को कहते हुए मांग सचना जारी की थी।

वर्णित सम्पत्ति पर निम्नलिखित खातों के सम्मुख उल्लिखित तिथियों पर कब्जा कर लिया है।

कर्जदार तथा जमानतीः श्री बलराज पुत्र मकान नं. 95, माप 223.88 वर्ग 15.09.2021

के साथ कोई संव्यवहार भारतीय स्टेट बैंक, एसएआर शाखा, सेक्टर-5, पंचकुला के प्रभार का विषय होगा।

नवर 95, शाति नगर, वाको दरा खरा, टीपी स्कीम-6-ए, जाट स्कूल के दीपी स्कीम-6-ए, जाट स्कूल के पास, थानसर। 473/457 मिन, खतौनी नंबर 524, रेक्ट नंबर 34, खसरा सं. 3(8-0),

कर्जदार तथा जमानती :श्रीमती कुसुम मकान नं. 81ए, माप 171 वर्ग 15.09.2021 03.03.2022

कर्जदारः मैसर्स त्रिदेव खल भंडार, भाग 1. बैंक के वित्त से सुजित 30.10.2021 03.03.2022

सामने चंदना गेट, कैथल - 136027 संयंत्र और मशीनरी, स्टॉक और प्राप्य का दृष्टिबंधक

स्थान: यमुना नगर

की ओर आकृष्ट किया जाता है।

श्री बलराज, दोनों का पता :

पास. थानेसर।

करुक्षेत्र।

कर्जदार(रों)/जमानती(यों) का नाम

नंबर 95. शांति नगर. वाका दर्श खेरा

लता एवं श्री जगबीर सिंह पुत्र श्री

46. निकट वाटर पम्प, वाका दर्रा

कर्जदार एवं जमानती : श्रीमती कुसुम

लता राणा पत्नी स्टा श्री यश पाल

निकट माधव क्लिनिक, अमीना रोड,

कलां, थानेसर, जिला कुरुक्षेत्र।

कृते इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेन्स लि. प्राधिकृत अधिकारी

एससीओ नं. 70, सेक्टर-5, पंचकुला

की तिथि

रू. 23.58.096.00 तथ

प्रभार. वसली. यदि

कोई हो. को घटाकर

14.09.2021 तक

रू. 27,92,906.00 तथा

प्रभार, वसूली, यदि

12.09.2021 तक

रु. 29.73.261.00 तथ

प्रभार, वसुली, यदि

कोई हो, को घटाकर

30.10.2021 तक

रू. 46,77,996.00 तथा

उस पर ब्याज एवं अन

प्रभार, दासली, यदि

कोई हो. को घटाकर

बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ईस्ट), मुंबई - 400 051,

022 66684583, 022 66684435

बैंक ऑफ़ इंडिया अपनी गैर-निष्पादक आस्तियों की बिक्री हेतु पात्र एआरसी/बैंकों/ एनबीएफसी/वित्तीय संस्थानों से अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है। यह बिक्री "जैसा है जहां है, जिस अवस्था में है और जो कुछ भी है" तथा "बिना किसी सहारा आधार" पर होगी। पात्र संभावित निवेशकों से अनुरोध है कि वे अधिक जानकारी हेतु तत्काल हमारे बैंक की वेबसाइट www.bankofindia.co.in मेँ एक्सप्रेसन ऑफ इंट्रेस्ट (Expression of Interest) भाग का

गैर-निष्पादक आस्तियों की बिक्री

दिनांक: 05.03.2022

🔷 केटल फीड प्लान्ट नदबई (भरतपुर) राजस्थान (यनिट ऑफ :- राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लि., जयपुर)

निविदा सूचना यन्त्र में निम्नलिखित कार्यों के लिये ऑनलाईन बिड/ऑफ-लाईन बिड के अन्तर्गत निविदार्ये आमंत्रित की जाती हैं यूबीएन नम्बर अनुमानित लागत (क्र. निविदा का नाम 1 पशु आहार परिवहन निविदा CDF2122SLOB01372 200 लाख 2 श्रमिक कार्य-(उच्चकुशल/कुशल/अकुशल/तकनीकी CDF2122SLOB01371 कार्मिक) उपलब्ध कराने का कार

3 विटामिन ई आपूर्ति ८ लाख 4 बॉयलर कैमीकल आपूरि CDF2122G\$RC01368 ५ लाख 5 नायलॉन श्रेड आपूर्ति २ लाख CDF2122WSRC01369 6 मोटर रिवाईडिंग निविद्या प्रपन मय गर्तो के विद्यागीय वेदसाईट अक्ष्य ध्यान llided.rajasthan.gov.in एवं एसपीपी पोर्टल Mip://s a https://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

बिज़नेस स्टैंडर्ड

बिजनेस रटैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मदक नंदन सिंह रावत द्वारा डम्प्रेशंस पिंटिंग ऐंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नं-22 व 49 ग्राउंड फ्लोर, फेज-॥ इंडरिट्रयल एरिया, पंचकुला-१३४११५, हरियाणा से मुद्रित एवं एससीओ ८६१, एनएसी मनी माजरा,चंडीगढ़-१६०१०१ से प्रकाशित

संपादकः कैलाश नौटियाल

आरएनआई न० WBHIN/2008/24333 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं टेलीफोन - 033-22101314/1022/1600 फैक्स- 033-22101599 सबरिक्रपान और सर्कलेशन के लिए कपया संपर्क करें. सुश्री मानसी सिंह

हेड कस्टमर रिलेशन्स बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, तीसरी और चौथी मंजिल, बिल्डिंग एच पैरागन सेंटर, सेंचुरी मिल्स के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई 400 013 ई मेल.. subs_bs@bsmail.ir या *57575* पर एसएमएस करें REACHBS

डिसक्लेमर.. बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉर्पोरेट जजत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है1 बिजनेस स्टैंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से पूरे परिस्थितयों के कारण वास्तविक घटनाकम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टी के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निसेश और लिए जाने वाले करोबारी निर्णयों के लिए बिज़नेस स्टेंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। बिजनेस स्टेंडर्ड के सभी विज्ञापन सद्भाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिज़नेस स्टेंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए। 0 बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा0 लि0 का सर्वाधिकार सुरक्षित है। बिजनेस स्टैंडर्ड प्रा0 लि0 लिखित अनमति लिए बजेर समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस तरह का निषिद्ध एवं अनिधकृत कार्य करने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरू की जाएगी।

चिप संकट बने रहने के आसार

पनीत वाधवा

नई दिल्ली, 4 मार्च

रूस और युक्रेन के बीच जारी भराजनीतिक संघर्ष का एक और अंसर देखने को मिल सकता है और वह है सेमीकंडक्टर चिप। पैलेडेयिम और नियॉन दो अहम संसाधन हैं, जिसका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर चिप के उत्पादन में होता है।

मुडीज एनालिटिक्स के टिम यवाई ने हालिया रिपोर्ट में कहा हैं, चूंकि रूस दुनिया भर में आपूर्ति होने वाले पैलेडियम का 40 फीसदी से ज्यादा देता है और यक्रेन वैश्विक नियॉन आपर्ति का 70 फीसदी उत्पादित करता है. लिहाजा वैश्विक स्तर पर चिप की किल्लत और गहरा

मुडीज एनालिटिक्स ने कहा, युक्रेन के 2014-15 के युद्ध के दौरान नियॉन की कीमत कई गुना

JHS

 मुडीज एनालिटिक्स के अनुसार, रूस-युक्रेन युद्ध से चिप संकट बना रहेगा

बढ़ गई थी. जो संकेत देता है कि यह सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए कितना गंभीर मामला है। सेमीकंडक्टर कंपनियों के पास कुल नियॉन मांग का 70 फीसदी जाता है क्योंकि यह चिप बनाने की लिथियोग्राफिक प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है।

> मुडीज एनालिटिक्स का मानना है कि ज्यादा विपरीत असर यरोप के उन देशों पर पड़ेगा. जो रूस से तेल व प्राकृतिक गैस हासिल करते हैं और उनके अनुमान के मुताबिक, वहां दुनिया की वैश्विक तेल आपूर्ति का 12 फीसदी व प्राकृतिक गैस का 17 फीसदी है। साथ ही वह पैलेडियम और गेहं का अहम आपूर्ति करने वाला देश

आपूर्ति करने वाला अहम देश है। कोविड महामारी के दौरान वैश्विक चिप किल्लत सुर्खियों में

है और यूक्रेन दुनिया का नियॉन

आ गई थी क्योंकि आवाजाही आदि पर पाबंदी आदि से दुनिया भर में डिजिटलीकरण तेज हुआ। आगामी महीनों में अगर मामला नहीं थमता है तो मुडीज एनालिटिक्स को लगता है कि चिप किल्लत और गहराएगी और इस पर ज्यादा निर्भर कंपनियां प्रभावित होंगी। इसका मतलब यह है कि कई वाहन निर्माताओं, इलेक्टॉनिक उपकरण निर्माताओं. फोन बनाने वालों व इस पर आश्रित अन्य क्षेत्रों के लिए काफी मुश्किल होगी।

देश के वाहन निर्माताओं के लिए यह दोहरी मार है, जो धातु की बढ़ती कीमतों और सेमीकंडक्टर की संभावित किल्लत का सामना कर सकते हैं।

जेएचएस सेवेनगार्ड लैबोरेटीज लिमिटेड कॉर्पोरेट पहचान संख्या L74110HP2004PLC027558 जेट एयखेज के पंजीकृत कार्यालय : त्रिलोकपुर रोड, खेड़ीकला-अम्ब, तहसील नाहन जिला-सिरमीर हिमाचल प्रदेश दूरभाष नं. : 011-29949675 तथा फैक्स नं. 01702-238830

वेबसाइट : www.svendgaard.com • ई-मेल : enqulry@svendgaard.com असाधारण आम बैठक तथा रिमोट ई-वोटिंग की जानकारी की सचना

तह्यरा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियमों और कॉर्पोरे ले मंत्रालय द्वारा जारी क्रमशः सामान्य परिपत्र संख्या 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, 33/2020 दिनांक 28 ततम्बर, 2020, 39/2020 दिनांक 31 दिसम्बर, 2020, 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021 तथा 20/2021 दिनांक सम्बर, 2021 (''एमसीए परिपत्र'') के साथ पठित सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 201 सूचीबद्धता विनियम) के अनुपालन में ईजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों के लेन-देन के लिए जेएचए वेन्द्रगार्ड लेबोरेटरीज लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) शनिवार, 26 मार्च, 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) या अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से किसी सामान्य स्थान रदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी।

. वित एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में, ईजीएम की सूचना की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियाँ उन सभी सदस्यों के पास शुक्रवा । मार्च, 2022 को भेज दी गयी हैं, जिनके ईमेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी सहभागियों के साथ पंजीकृत हैं। कृप यान दें कि एमसीए परिपत्रों के माध्यम से सदस्यों को ईजीएम की सुचना की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता व माप्त कर दिया गया है। सूचना कंपनी की वेबसाइट www.svendgaard.com, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिट लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoging.nsdl.com और स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com त ww.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।

प्रस्था, जिनके पास भौतिक/इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर हैं और उनके ई−मेल पते कंपनी/उनके संबंधित डिपॉजिट प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं हैं, से अनुरोध है कि वे विधिवत हस्ताक्षरित पत्र की स्कैन प्रति के साथ अपना न ारा पता. फोलियो नंबर, कंपनी के साथ धारित शेयरों की संख्या, पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन कॉपी और सद पते के प्रमाण के समर्थन में दस्तावेज, जैसा कि कंपनी के साथ पंजीकृत है, निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी की स्व-सत्यापित स्कैन कॉपी, जैसे आधार कार्ड , ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव कार्ड, पासपोर्ट, उपयोगिता बिल या कोई अन्य सरकारी दस्तावेज का उल्लेख करते हुए cs@svendgaard.com पर निवेदन भेजकर अपना ई-मेल पर गीघ्रातिशीघ्र पंजीकृत करा लें। डीमैट प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य अपने ई–मेल पते अपने डिपॉजिटर ग़गीदार के साथ आपडेट करा सकते हैं। सदस्य ईजीएम की सूचना प्राप्त करने के लिए आपने ई-मेल प s@svendgaard.com पर निवेदन भेज सकते हैं।

रीति तथा वीडियो कांफ्रेंस (वीसी) के माध्यम से ईजीएम में शामिल होने की रीति वर्णित है ज कम्पनी/एनएसडीएल/स्टॉक एक्सचेंजों की उपर्युक्त वेबसाइट पर उपब्ध है। कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 18 मार्च, 2022 को भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस

गएसडीएल के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ईजीएम की सूचना में निर्धारित विशेष व्यवसायों प लेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। सभी सदस्यों को सचित किया जाता है कि: ईजीएम की सूचना में निर्धारित विशेष व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान के माध्यम से किए जाएंगे;

रिमोट ई-वोटिंग बधवार, 23 मार्च, 2022 को पर्वाह्र 9:00 बजे (भा.मा.स.) शरू होगी: रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 25 मार्च, 2022 को शाम 05:00 बजे (भा.मा.स.) समाप्त होगी। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या ईजीएम में मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि शुक्रवार

18 मार्च, 2022 है और जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल सचना के उद्देश व्यक्ति. जो कंपनी के शेयर अर्जित करता है और एजीएम की सचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता

और शेयर धारण करता है और वोट देने के लिए पात्र है वह ईजीएम की सूचना में प्रदान की गई लॉगिन आईडी और पासवर्ड स्पेजित करने की प्रकिया का पालन कर सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति पहले से ही ई-वोटिंग के लिए एनडीएस के साथ पंजीकृत है, तो मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है;

क) रिमोट ई-वोटिंग मॉडयल को एनडीएसएल द्वारा मतदान के लिए उपरोक्त तिथि और समय के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा एक संकल्प पर वोट डालने के बाद, बाद में सदस्य को इसे बदलने की अनमति नहीं दी जाएगी:

ख) ईजीएम से पहले रिमोट ई-बोटिंग द्वारा अपना वोट डालने वाले सदस्य भी ईजीएम में शामिल हो सकते हैं लेकिन वे दुबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे: ग) इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से मतदान की सुविधा ईजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी; और

घ) कोई व्यक्ति जिसका नाम कट ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा प्रबंधित लाभा स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ ईजीएम में वोटिंग की सुविधा क

ईजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और वोटिंग से संबंधित महों और चिंताओं सहित किसी भी प्रश्न के मामले में. आप यरि ईजीएम से पूर्व या इसके दौरान सहायता सहायता चाहते हैं तो वेबसाइट www.evoting.nsdl.com प Downloads Section' के तहत Frequently Asked Questions (FAQs) for Members तया e-vo ing user manual for Members का सन्दर्भ ले सकते हैं। आप एनएसडीएल से टोल फ्री नंबर 1800-222-99 र संपर्क कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर निवेदन भेज सकते हैं या सुश्री सरिता मोटे, सहायक प्रबंधक शनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड टॉवर, 'ए' विंग, 4था तल, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापित बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई–400 013 से उनके निर्दिष्ट ई–मेल आईडीः evoting@nsdl.co.in पर संपर्क कर

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकार्र

संजीव कपूर बनेंगे मुख्य कार्याधिकारी

कालरॉक जालान कंसोर्टियम एक वरिष्ठ प्रबंधन टीम के साथ काम कर रहा है। यह कंसोर्टियम जेट एयरवेज के कायाकल्प पर विचार कर रहा है। शुक्रवार को कंसोर्टियम ने

विमानन क्षेत्र के दिग्गज संजीव कप्र को अपना मुख्य कार्याधिकारी नियुक्त किए जाने की घोषणा की है। कपुर 4 अप्रैल से नई जिम्मेदारी संभालेंगे। कपूर मौजुदा समय में ओबरॉय होटल्स ऐंड रिजॉर्ट्स के अध्यक्ष हैं। ओबरॉय समृह के साथ जुड़ने से पहले वह विस्तारा में मुख्य रणनीति एवं वाणिज्यिक अधिकारी थे और रणनीति, विपणन, नेटवर्क नियोजन तथा अन्य कार्य देखते थे।

वह 2014-15 में सीओओ के तौर पर स्पाइसजेट की कमान संभाल रहे थे और उसकी नई मुल्य निर्धारण तथा विपणन रणनीतियों का प्रबंधन कर रहे थे। इस अवधि में एयरलाइन को ऊंची तेल कीमतों के बीच नकदी किल्लत का भी सामना करना पड़ा था और इससे स्वामित्व में बदलाव को बढावा मिला। कपुर ने वर्ष 2016 में स्पाइसजेट को छोड दिया था। पिछले महीने कंसोर्टियम ने

श्री लंकन एयरलाइंस के मुख्य कार्याधिकारी विपुल गुनातिलेका को जेट के मुख्य वित्तीय अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया था। कंसोर्टियम ने परिचालन-पूर्व खर्च के वित्त पोषण के लिए ऋण के जरिये एयरलाइन में करीब 50 करोड़ रुपये लगाए और मार्च 2022 तक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की मंजूरी हासिल करने की प्रक्रिया से गुजर रही है। बीएस

भाग 2. 1. संपत्ति एमसीके नं. 267/21, माप 341 वर्ग गज, मोहल्ल और श्री वेद पाल पुत्र श्री बलवंत ग्राम मटौर, तहसील कलायत, जिला सुंदरन, चंदना गेट का इक्विटेबल बंधक, श्रीमती चंद्रावती पत्नी श्री वेद कैथल। पाल के नाम पर, बिक्री विलेख संख्या 2036 दिनांक 17.06.2010, 2. जमानती: श्रीमती चंद्रावती पत्नी श्री वेद पाल, # 450/26, बैंक कॉलोनी चंदना रोड, कैथल और श्रीमती पन पत्नी श्री राम नारायण, वीपीओ टीटराम, जिला कैथल।

दुकान माप 22.28 वर्ग गज का इक्विटेबल बंधक, नंबर 331/21, 332/21 और 1/2 हिस्स 331/21, चंदना गेट में, श्रीमती पूनम पत्नी श्री राम नारायण के नाम पर, विक्रय विलेख स 8405/1 दिनांक 31.03.2009, 3. श्रीमती के नाम पुनम पत्नी श्री राम नारायण के नामपर, चंदन तिथि : 05/032022 स्थान : पंचकुला

गेट में, मोहल्ला सुंदरन में स्थित सं. 331/21, 332/21 और 1/2 हिस्सा 331बी/21, माप 22.28 वर्ग गज का इक्विटेबल बंधक बिक्री विलेख संख्या 6618/1 दिनांक 18.01.2008 के माध्यम से।